

Date: August 02, 2024

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – 532541
Equity ISIN INE591G01017
Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – COFORGE

#### Subject: Newspaper publication-Notice of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company has published the "Notice of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are enclosed.

Kindly take this on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary Membership No: ACS 24060

Encl: as above

Coforge Limited





Regd Office: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010, Gujarat. Tel.: +91-79-23268500/700 Fax: +91-79-23238506 Website: www.gspcgroup.com **NOTICE INVITING TENDER** 

Gujarat State Petronet Limited (GSPL) is currently operating more than 2700 Km of gas pipelines to facilitate gas transmission from supply points to demand centers across Gujarat. GSPL invites bids from competent agencies for following requirements

Revamp of Non-IT infrastructure (replacement of racks, cooling system & passive work) for GSPL server room Tender-2: Civil & associated miscellaneous repairing works for GSPL Bhavan, Gandhinagar Tender-3: Civil maintenance works for Rajkot Base locations Tender-4: Appointment of Contractor for Direct Assessment Services fo Botad Spurline of GSPL Gas Grid Tender-5: Appointment of Contractor for Maintenance & Restoration of

Optical Fibre Cable (OFC) for GSPL gas grid Aforementioned tenders shall be published online through n-Procure, and bids are accepted through n-Procure (https://gspitender.nprocure.com/) only Date of tender upload on n-Procure portal is 02-08-2024 @ 15.00 hrs. IST

## **Coforge** Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Phone: +91 (11) 41029297.

Email: investors@coforge.com, Website: https://www.coforge.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, August 23, 2024 at 04:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Mode ("OAVM") to transact the business specified in the Notice convening the said AGM through e-voting, without the physica resence of the Members at a common venue, in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with Genera Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, and the latest circular date September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (referred as 'MCA' Circulars') and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and other relevan circulars issued by Securities and Exchange Board of India (referred as 'SEBI Circulars" Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and as amended from time to time). The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM and e-voting re mentioned in the Notice convening the AGM.

The Company has on August 01, 2024, sent the emails through National Securities Depository Limited (NSDL) containing notice of the 32nd AGM along with the Annua Report for the financial year ended March 31, 2024 to the members whose email IDs are registered with the Depositories or the Company. In view of aforesaid MCA & SEB Circulars, physical copies of the AGM Notice and Annual Report are not being dispatched and the AGM Notice along with the Annual Report for FY 24 has been sent only through

Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download it fron the website of the Company at www.coforge.com under the 'investors' section (weblink fo Notice: https://www.coforge.com/hubfs/AGM-Notice-2024.pdf weblink for Annua Report: https://www.coforge.com/hubfs/Annual-Report-2024.pdf) or may request fo a softcopy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned email d or registered office address of the Company. The aforesaid Notice of the AGM & Annua Report is also available on the websites of National Stock Exchange of India Limited a https://www.nseindia.com and BSE Limited at https://www.bseindia.com where the securities of the Company are listed and on the website of NSDL (the e-voting service provider) at www.evoting.nsdl.com.

Shareholders whose email IDs are not registered, are requested to register their email id's by contacting (i) relevant Depository Participant (in case of dematerialised shares) or (ii the Company at <a href="mailto:investors@coforge.com">investors@coforge.com</a> or Alankit Assignments Limited ("RTA") a rta@alankit.com (in case of physical shares) by sending a signed request letter in form SR-1 (available on the website of the Company) along with self-attested copy of PAN Card and address proof and such other documents as provided in the said form. Post successfu registration of the email, the shareholder may reach NSDL website to generate the password online by providing his/her credentials. In case of any queries, shareholder may write to evoting@nsdl.com or investors@coforge.com.

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided n the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form who have not registered their email address either with the Company or their respective Depository Participants ("DPs"). Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Act.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, SS-2 and other applicable provisions, if any, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the business as se forth in the Notice of the 32nd AGM from a place other than the place of venue of AGM by electronic means. The Company has engaged services of NSDL to provide remote e

The remote e-voting period commences on Tuesday, August 20, 2024 at 09:00 A.M IST) and ends on Thursday, August 22, 2024 at 05:00 P.M. (IST). The e-voting i shall be disabled by NSDL for voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date, being Friday, August 16, 2024 may cast their vote by remote e-voting or may vote at the AGM. The voting rights of the members shall be n proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on cut-off date person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of voting through remote e-voting or at the AGM. A person who is not a member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only. The

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Compan after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. **Friday, August 16** 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or investors@coforge.com However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

procedure of e-voting/attending AGM is given in the Notice of AGM.

Further, the facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have already cast their votes through remote e-voting will be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668; COP 2388) fron M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinize to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The results of the AGM will be announced by the Chairman of the Company or Company Secretary duly authorized within two working days of conclusion of AGM and communicated to the Stoci Exchanges and shall also be displayed on the website of the Company i.e www.coforge.com and on the website of NSDL (e-voting service provider) i.e www.evoting.nsdl.com

In case of any queries or grievances relating to electronic voting or attending the AGN through VC/OAVM, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) fo Members and e-voting user manual available at the download section o https://www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL helpdesk by sending a request to Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager a evoting@nsdl.com or contact NSDL at 022 - 4886 7000. Members may also write to Company Secretary at <a href="mailto:investors@coforge.com">investors@coforge.com</a> or registered office address of the

Members may please also note that SEBI has amended Regulation 40 of SEBI Listing Regulations and has mandated that all requests for effecting transfer of securities including transmission and transposition shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avai various benefits of dematerialization, members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form. Members may contact the Company/RTA in this regard.

Further, in terms of provisions of Act, members desirous of appointing their Nominees fo the shares held by them may apply in the Nomination Form (Form - SH 13). Membe desirous to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in Form ISR-3 or SH-14 as the case may be. The said forms can be downloaded from the Company's website. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to RTA in case the shares are held in physical form.

Furthermore, members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc. to their DP in case the shares are held by them in electronic form and to RTA Alankit Assignments Limited in case the shares are held by them in physical form in the prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/65 dated November 3, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/ CIR/2021/687 dated December 14, 2021 and SEBI/HO/ MIRSD/ MIRSDPoD1/P/CIR/2023/37 dated March 16 For and on behalf of

Coforge Limited Barkha Sharma

ACS: 24060

Dated : August 01, 2024 Place : Noida



### **ROYAL SUNDARAM INSURANCE**

DISCLOSURE AS PER REGULATION 52(8) READ WITH REGULATION 52(4) OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30™ JUNE 2024

	Particulars	Three mo	Year ended	
SI. No.		30 <sup>th</sup> June 2024	30 <sup>th</sup> June 2023	31 <sup>st</sup> March 2024 Audited
		Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from operations*	1,11,449	90,845	3,82,453
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	8,074	7,242	15,333
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8,074	7,242	15,333
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	6,057	5,401	11,415
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] **	NA	NA	NA
6	Paid up equity share capital	44,900	44,900	44,900
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	99,330	90,402	93,273
8	Securities premium account	25,500	25,500	25,500
9	Net worth	1,69,730	1,60,802	1,63,673
10	Outstanding redeemable preference share	-	-	-
11	Paid up debt capital/outstanding debt	12,600	12,600	12,600
12	Capital redemption reserve	-	-	-
13	Debenture redemption reserve	1,260	1,260	1,260
14	Earnings per share (of ₹10/-each) (for continuing and discontinued operations)			
,	I. Basic: (not annualized) ₹	1.35	1.20	2.54
	II. Diluted: (not annualized) ₹	1.35	1.20	2.54
15	Debt-equity ratio (No. of times)	0.07	0.08	0.08
16	Debt service coverage ratio (No. of times)	33.43	30.15	16.35
17	Interest service coverage ratio (No. of times)	33.43	30.15	16.35

\* The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to Insurance companies in India.

Notes: 1.The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with IRDA Circular Reference No.IRDA/F&A/CIR/LFTD/027/01/2017 dated 30<sup>th</sup> January 2017, including amendments thereof. 2.The full format of the quarterly/annual financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Company royalsundaram.in). 3. The above financial results have been recommended by the Audit Committee and ap 30" & 31st July 2024 respectively.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chennai Date: 31st July 2024

Amit S Ganorkar Managing Director DIN: 07889158

#### ROYAL SUNDARAM GENERAL INSURANCE CO. LIMITED

Registered Office: 21, Patullos Road, Chennai - 600 002. Corporate Office: Vishranthi Melaram Towers, No.2 /319, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai - 600 097 IRDAI Registration No.102/Dated 23.10.2000 | CIN:U67200TN2000PLC045611

⊠ care@royalsundaram.in mww.royalsundaram.in **(**) 1860 425 0000



#### PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED CIN: L07010KA1997PLC022322

Registered Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bengaluru - 560025 Tel: +91 80 25591080, Fax: +91 80 25591945

Email: investors@prestigeconstructions.com; Website: www.prestigeconstructions.com

Extracts from the Consolidated Unaudited Financial Results of Prestige Estates Projects Limited for the quarter ended June 30, 2024:

Sl. Particulars			Year ended		
No.		30-Jun-24 Unaudited	31-Mar-24 Audited	30-Jun-23 Unaudited	31-Mar-24 Audited
1.	Total income from operations	20,245	22,325	19,663	94,253
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,221	2,752	4,084	21,110
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,093	3,145	4,041	21,223
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items	3,070	2,359	3,178	16,287
5.	Total Comprehensive Income [Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,070	2,361	3,178	16,282
6.	Paid up Equity Share Capital	4,009	4,009	4,009	4,009
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic : Diluted:	5.80 5.80	3.49 3.49	6.66 6.66	34.28 34.28

Extracts from the Standalone Unaudited Financial Results of Prestige Estates Projects Limited for the quarter ended June 30, 2024:

Sl. No.	Particulars		Year ended		
		30-Jun-24 Unaudited	31-Mar-24 Audited	30-Jun-23 Unaudited	31-Mar-24 Audited
1.	Total income from operations	4,687	6,679	5,708	29,059
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	106	326	408	2,232
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	106	326	408	2,232
4.	Net Profit for the period	192	667	390	2,458
5.	Total Comprehensive Income [Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	192	671	390	2,455
6.	Paid up Equity Share Capital	4,009	4,009	4,009	4,009
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	64,530	64,338	62,874	64,338
8.	Net worth	68,539	68,347	66,883	68,347
9.	Debt	37,240	37,543	31,095	37,543
10.	Debt Equity Ratio	0.54	0.55	0.46	0.55
11.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) –	0.49	1.66	0.97	6.13
	Basic : Diluted:	0.48 0.48	1.66	0.97	6.13
12.	Debenture Redemption Reserve	851	769	1132	769
13.	Debt Service Coverage Ratio	0.53	0.69	1.03	0.68
14.	Interest Service Coverage Ratio	1.08	1.21	1.45	1.49
15.	Current Ratio	1.03	1.03	1.01	1.03
16.	Long Term Debt to Working Capital	2.96	2.69	9.59	2.69
17.	Bad Debts to accounts receivable ratio	-	-	0.00	0.00
18.	Current Liability Ratio	0.85	0.84	0.85	0.84
19.	Total debts to total assets	0.18	0.19	0.18	0.19
20.	Debtors Turnover	1.12	1.76	1.42	7.33
21.	Inventory Turnover	0.06	0.10	0.10	0.47
22.	Operating Margin %	45.00%	36.60%	34.82%	30.93%
23.	Net Profit Margin %	4.84%	11.54%	7.29%	9.27%

Place: Bengaluru

Date: July 31, 2024

a. The above Unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 31, 2024.

b. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 & 52 of the Listing Regulations. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the Company's website www.prestigeconstructions.com and can also be viewed on the stock exchange websites of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

c. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.

Prestige Estates Projects Limited

Irfan Razack Chairman and Managing Director

DIN: 00209022

By order of the Board of

#### [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] **IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED**

Regd Office: Plot no.188/183, Zero Point, Udayabata, Paradeep, Jagatsinghpur Odisha, India, 754141 CIN:U45208OR2009PLC011389 Phone: +91 22 6930 9500 Email: girjesh.shrivastava@iavl Website: www.iuesl.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2024

Rs in Crores **Particulars** ing 3 Month 3 Months 3 Months Ended Ended Year /ear Ende 30.06.2024 31.03.2024 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited 520.84 Total Income from Operation 130.36 126.90 130.40 27.77 25.77 19.44 exceptional items 90.9 25.77 19.30 t from ordinary activities before tax 20.78 Profit from ordinary activities after tax
Extraordinary Item (net of tax) 14.55 68.03 Net Profit for the period
Other Comprehensive Income (net of tax) 68.03 20.78 19.30 14.55 20.78 19.30 14.55 68.03 9 Total Comprehensive Income 10 Paid up Equity Share Capital (Face value per share Rs 10) 526.28 526.28 11 Paid up Debt Capital 1,110.52 1,174.62 1,356.14 1,174,62 (58.27) (79.05) (132.53 12 Reserves excluding Revaluation Reserve 13 Net Worth 468.01 447.22 393.7 447.2 Outstanding redeemable preference share (quantity and value); Capital redemption reserve/debenture redemption reserve 16 Earnings per share (Basic and Diluted) (Rs) (of Rs 10 each - Not annualised) 0.37 0.28 Debt Equity Ratio 2.63 2.63 3.44 18 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1.25 1.20 1.19 1.23

a) The above is an extract of the detailed format of the financial results of the Company for the Quarter ended on 30th June The above is an extract of the detailed format of the financial results of the Company for the Quarter ended on 30th June 2024 filed with BSE Limited (Stock Exchange) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),2015. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange i.e BSE Limited and the website of the company at URL: https://iuesl.com/investor-relations/2024.

The above financial results for the Quarter ended on 30th June 2024 were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 31st July 2024.

For the items reffered in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),2015, the pertinent disclosurers have been made available on the website of the Stock Exchange i.e BSE Limited and the website of the company at URL: https://iuesl.com/investor-relations/2024.

The figures for the corresponding previous period have been regrouped / restated wherever necessary, to make them comparable.

19 Interest Service Coverage Ratio (ISCF)

For IOT Utkal Energy Services Limited

Rejith Bhaska Place: PARADIP Wholetime Director & CEO

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED (CIN: L24124RJ1985PLC003293) Registered Office: Gadepan, District Kota, Rajasthan, PIN-325 208

**Telephone No.:** +91-744-2782915; **Fax No.:** +91-7455-274130 Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi-110 025 Telephone Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679 **E-mail**: <u>isc@chambal.in</u>; **Website**: <u>www.chambalfertilisers.com</u>

#### NOTICE OF THE THIRTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the members of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited ("the Company") will be held at 10.30 A.M. Indian Standard Time ("IST") on Tuesday, August 27, 2024, through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, General Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular no. 2/2022 dated May 05, 2022, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular no. 14/2020 dated April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with Master Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, notice of AGM dated July 23, 2024 and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report 2023-24") have been sent electronically through email on Thursday, August 01, 2024, to those members whose e-mail address are registered with the Company or the depositories/ depository participants. These documents are also available on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("e-Voting"), and the business set out in the notice of AGM may be transacted through e-Voting. The Company has engaged NSDL to provide the facility of remote e-Voting to the members and the facility of e-Voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The process and manner of remote e-Voting, attending AGM through VC/OAVM and e-Voting at AGM, for members holding shares in demat form and/or in physical form and for members who have not registered their email address, have been provided in the notice of AGM.

We further inform that:

- Remote e-Voting shall commence at 09.00 A.M. IST on Friday, August 23, 2024.
- Remote e-Voting shall end at 05.00 P.M. IST on Monday, August 26, 2024 and remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The cut-off date for determining the eligibility for remote e-Voting and voting at AGM through e-Voting system is August 20, 2024. Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories (in case shares held in dematerialised form) as on the cut-off date i.e. August 20, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM through e-Voting system.
- Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. August 20, 2024, may obtain the User ID and password by sending a request through email at evoting@nsdl.com or isc@chambal.in. However, if such member is already registered for e-Voting then such member may follow the process and manner of remote e-Voting, attending AGM through VC / OAVM and e-Voting at AGM given in notice of AGM.
- The facility of e-Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC / OAVM and the members, who have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote through e-Voting in the AGM.
- vi. A member may attend / participate in the AGM through VC / OAVM even after exercising his / her right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the
- vii. In case of any queries/ grievances connected with remote e-Voting or the e-Voting in the AGM or if the members need any assistance before or during the AGM, the members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.com or pallavid@nsdl.com (call at +91 22 - 48867000) or Mr. Shyamal Kumar Choudhury, Deputy Manager - Secretarial of the Company at the designated email ID: isc@chambal.in or at the address and telephone numbers of the Corporate Office of the Company given above.

Members may register / update their email address, by following the procedure mentioned below:

- (i) For members holding shares in physical form: Please send duly completed Form ISR-1 along with requisite documents, at the Corporate Office of the Company at "Corporate One" First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi – 110 025 or to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finserv Limited, Plot no.2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi -110 048 ("STA"). Form ISR-1 is available on the website of the Company at http://www.chambalfertilisers.com.
- (ii) For the members holding shares in demat form: Please register/ update your email address through your depository participant.

In pursuance of the Master Circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India, members holding shares in physical form are requested to furnish PAN, nomination, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details and specimen signatures for their corresponding folio number(s).

In case any of the aforesaid documents / details are not available in the records of the Company/ STA, members shall not be eligible to lodge grievance or avail any service request from the STA, until they furnish aforesaid KYC details / documents. Further, w.e.f. April 01, 2024, any payment, including dividend, is paid to members in electronic mode only.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Sd/-**Tridib Barat** 

Vice President - Legal & Company Secretary



















Place: New Delhi

Date : August 01, 2024





(रूपए लाख में, सिवाय प्रति शेयर डेटा)

सरफंसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा सूचना
चृंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के
अतर्गत और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती, 2002 के नियम के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त
शवितयों के अनुपातन में एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा आंधिरताक्षरों ने उत्त सूचना की
प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का मुगतान करने के लिए नीचे वर्णित
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) को बुताने के लिए मांग सूचना जारी की थी
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) राशि का मुगतान करने में असफल रहे, एतद्वरारा
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
अधीडस्ताक्षरों ने प्रतिमृत्ती हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उत्तर अधिनियम की धारा
13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शित्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष
रूप से ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को एतद्वरारा संपत्ति के
साथ तेन न्देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सर्वतित के साथ किया या या को है में लेन्स वैंक
के प्रमार का विषय होगा। ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं)
का ध्यान प्रतिमृतित
संपत्तियों के लिए जपलब्ध समय के सबंध उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के
प्रवादानों के लिए भी आमंत्रित है। सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा सचना

ऋणी /ू	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि		
सह—ऋणी	V4100 47144V-1	कब्जा तिथि		
का नाम		मांग सूचना में राशि (रु.)		
राजेश	फ्लैट नं. 705, 7वीं मंजिल, टॉवर नं. 1, एक्सप्रेस	17 जनवरी, 2024		
रामभरोसेलाल	पार्क व्यू अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा, जिला	27 जुलाई 2024		
शाक्या	गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश व प्लॉट नं. जीएच—10बी, सेक्टर सीएचआई—V , ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	₹. 39,27,477 /—		
ऋषिका दिनेश	फ्लैट नं. 0301ए, तीसरी मंजिल पर, ''बी'' बिल्डिंग में,	30 सितंबर, 2022		
पारेख व	रेजेंसी पार्क, जीएच-03बी, जीएच-03बी, सेक्टर	27 जुलाई 2024		
मुकेश कुमार	16सी, ग्रेटर नोएंडा, गाजियाबाद, उ.प्र. 201009	रु. 31,52,711 ∕ −		
	A(A) ( (A) ( (A) ( A-A			

उक्त वर्णित ऋणी(यों) / सह—ऋणी(यों) / गारंटर(ओं) / गिरवीकर्ता(ओं) को एतदद्वारा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की सूचना दी जाती है अन्यथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के तहत प्रावधान के अनुसार गिरवी संपत्तियों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि.

दिनांक : 02.08.2024 स्थान : नोएडा

## Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753 पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रविदास मार्ग कालकाजी, नई दिल्ली — 110019

फोन: +91 (11) 41029297. ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: https://www.coforge.com

### 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अप. 04.30 बजे कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") व संबद्ध प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2019 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी इसके जनरल सर्कलर्स दिनांकित 08 अप्रैल. 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, तथा नवीनतम सर्कूल दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए सर्कूलर्स" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति ए विनिमय बोर्ड द्वारा जारी इसके सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथ सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 , जीतरा, 2021, राषुर्धाः निर्माणका । विकास स्थिति । सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 और सर्कुलर नार् सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी/सीएमडी-पीओडी2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 तथा अन्य संबद्ध सर्कुलर्स ("संबी सर्कुलर" के रूप में संदर्भित इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीय मानक ("एसएस–2") तथा किसी अन्य लागू विधि, नियमावली एवं विनियमावली (अस्थायी रूप से लागू तथा समय समय पर संशोधित उसके सांविधिक संशोधन(नों) अथव पुनर्–अधिनियमन(नों) सहित) के अनुसरण में ई–वोटिंग के माध्यम से, किसी एक स्थान पर . सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मोड ("ओएवीएम") के माध्यम से उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय निष्पादन हेत आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकत कार्यालय एजीएम हेत स्थल मान जाएगा। वीसी /ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम आयोजन की

--कम्पनी ०१ अगस्त, २०२४ को ई—मेल, जिसमें ३२वीं एजीएम की सूचना तथा ३१ मार्च, २०२४ के समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेउ (एनएसडीएल) के माध्य से उन सभी सदस्यों को भेज चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी उ डिपॉजिटरीज अथवा कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी सर्कुलर्स वं दृष्टिगत एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की जा रही हैं तथा एजीएम सूचना औ वित्तीय वर्ष 24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल ई—मेल द्वारा भेजी गई है।

सदस्यगण, जिनको सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसे कम्पनी की वेबसाइर www.coforge.com पर 'investors' सेक्शन से (सूचना हेतु वेबलिंक https://www.coforge.com/hubfs/AGM-Notice-2024.pdf वार्षिक रिपोर्ट हेतु वेबलिंक https://www.coforge.com/hubfs/Annual-Report-2024.pdf) डाउनलोड कर सकते है अथव उसकी सॉफ्टकॉपी उपरोक्त ई–मेल आईडी पर कम्पनी सचिव को एक लिखित अनुरोध भेजकर अथवा कम्पनी के पंजीकत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट <u>https://www.nseindia.com</u> और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभूतिय सूचीबद्ध हैं तथा एनएसडीएल (ई—वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट<u>www.evoting.nsdl.com</u> प र्गे उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं हैं, से उनकी ई–मेल आईडी'उ पंजीकृत करने हेतु (i) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से (डीमैटीरियलाइज्ड शेयर्स के मामले में) अथवा (ii) कम्पनी से <u>investors@coforge.com</u> पर अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) से (भौतिक शेयर्स के मामले में) rta@alankit.com पर सम्पर्क करने तथा प्रपत्र आईएसआर—1 (कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, पैन कार्ड तथ् पता प्रमाण और उक्त प्रपत्र में वर्णित अन्य दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियों सहित भेजन द्वारा सम्पर्क करने का अनरोध किया जाता है। ई—मेल का सफल पंजीकरण होने पर शेयरधारव . एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध करवाकर पासवर्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। किसी संशय की स्थिति में शेयरधारक <u>evoting@nsdl.com</u> <u>investors@coforge.com</u> को लिख सकते हैं।

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग एजीएम आयोजन की सचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक ऐर . यरधारकों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नह करवाया गया है, के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी सचना में दिए गए हैं वीसी/ओवीएएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन नेयमावली, 2014, कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के नेयम 44 के प्रावधानों और सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीय मानकों ('एसएस–2') तथ अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को 32वीं एजीएम की सूर्चना में उल्लेखित व्यवसाय के संबंध में एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से इलेक्टॉनिव साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविध प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी तथा **बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2024 को साय 05.00 बजे (आईएसटी)** समाप होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिय जाएगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कम्पनी के वे सदस्य, जो **विच्छेदन तिथि शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024** को भौतिक अथवा डिमेटीरियलाइज रूप में शेयर धारक हैं. अपने वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में वोट डाल सकते हैं सदस्यों के वोटिंग अधिकार विच्छेदन तिथि को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों व अनुपात में होंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षि लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजद होगा. केवल वहीँ रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा। वह व्यक्ति जो विच्छेदन तिथि को सदस्य नहीं है, इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे। ई—वोटिंग / एजीएग में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी क सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि **शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024** को शेयरधारक है evoting@nsdl.com अथवा investors@coforge.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथ पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीबद्ध हैं. तब आप अपनी मौजदा यजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग अपना वोद डालने के लिए कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम में भी ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्य, जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके है एजीएम में उपस्थित होने के हकदार होंगे, परंतु दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

मैसर्स नित्यानन्द सिंह ऐण्ड कम्पनी, कम्पनी सेक्रेटरीज के श्री नित्यानन्द सिंह, कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668: सीओपी 2388) को वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया निष्प& और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। एजीएम व परिणाम कम्पनी के चेयरमैन अथ्वा विधिवत प्राधिकृत कम्पनी संचिव द्वारा एजीएम समापन के दे कार्यदिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंजेज को सचित किए जाएंगे और कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.coforge.com पर तथा एनएसडीएल (ई—वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में अथवा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने व संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com व डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) तथ ई–बोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष, एनएसडीएल पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को <u>evoting.nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजक एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 022—4886 7000 पर सम्पर्क क सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को <u>investors@coforge.com</u> पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

सदस्यगण कृपया नोट करें कि सेबी ने सेबी सूचीयन दायित्व विनियमावली के विनियम 40 र संशोधन किया है तथा आदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु सभी अनुरोध, उनके ट्रांसभिशन एवं ट्रांसपोजीशन अनुरोधों सहित, केवल डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रोसेस किए जाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने तथा डिमैटीरियलाइजेशन के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्यों को उनके द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयर डिमैटीरियलाइज करवाने की सलाह दी जाती है। सदस्यगण इस संबंध में कम्पनी / आरटीए से सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम के निबन्धनों में सदस्यगण जो उनके दारा धारित शेयर्स हेत अपर नामिती नियक्त करने के इच्छक हैं, नामांकन प्रपत्र (प्रपत्र – एसएच 13) में आवेदन कर सक हैं। पूर्वतर नामांकन समाप्त या निरस्त करने तथा नया नामांकन रेकार्ड करवाने के इच्छुव सदस्य अपना आवेदन प्रपत्र आईएसआर—3 अथवा एसएच—14. यथास्थिति, में प्रस्तुत क सकते हैं। उक्त प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभौतिक रूप मे धारित शेयर्स के मामले में सदस्यों से अपना विवरण अपने डीपी और अभौतिक रूप में धारित शेयर्स के मामले में आरटीए के पास जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सेबी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकि 03 नवम्बर, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 14 दिसम्बर, 202<sup>,</sup> तथा SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 16 मार्च, 2023 के अनुसरण ग सदस्यों से उनके नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता क्रमांव (पैन), आदेशों, नामांकनों, प्राधिकार पत्र, बैंक विवरण जैसेकि बैंक का नाम तथा शाखा विवरण की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने डीपी को तथा भौतिक रूप र धारित<sup>ै</sup> शेयरों के मामले में आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को निर्धारित प्रपत्र आईएसआर—1 और अन्य प्रपत्रों में देने का अनरोध किया जाता है।

तिथि: 01 अगस्त. 2024

**स्थान** : नोएडा

कोफोर्ज लिमिटेड हस्ता / बरखा शर्म

ACS: 24060



पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस नई दिल्ली — 110 019 फोन : 011-41732000 वेबसाईट : www.ifciltd.com सीआईएन : L74899DL1993GOI053677

परिशिष्ट— IV ए [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

#### अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतूक के साथ पठित के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना,

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता / बंधककर्ता और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है. जिसका प्रतीकात्मक कब्जा आईएफसीआई लिमिटेड (सरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और <sup>"</sup>जो कुछ भी है" के आधार पर **04/09/2024** को **रु**. **37.79.35.239** / – की वसली (ब्याज की गणना 14 / 07 / 2024 तक की गई), साथ ही 15/07/2024 से संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क, व्यय और अन्य डेबिट, सीडर इंफोनेट प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) और गोल्फ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। (बंधककर्ता),से आईएफसीआई लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) को देय। **आरक्षित मूल्य के लिए रु.11.01 करोड़ रुपये होगा और** बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.1.101 करोड़ रुपये होगी।

#### अचल संपत्ति का विवरण

भूमि का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, जो खसरा संख्या वाली संपत्ति का हिस्सा है, उसका विवरण नीचे दिया गया है

संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण भूमि के वे सभी टुकड़े और पार्सल या ज़मीनी विरासत और परिसर ₹.11.01 करोड़ रुफ जो प्लॉट नंबर के संबंध में पड़े और मौजूद हैं। 159, ब्लॉक–डी मे 621.32 वर्ग मीटर। ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।, नई दिल्ली मे स्थित, सभी।भवनों, पी एंड एम, संरचनाओं, फर्नीचर, फिटिंग फिक्स्चर निर्माण आदि के साथ मेसर्स गोल्फ टेक्नोलॉजी पी लिमिटेड द्वारा विशेष प्रभार बनाते हुए आईएफसीआई लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया। उस पर निर्माण किया गया।

उपर्युक्त अचल के संबंध में कोई ज्ञात बाधा नहीं है संपत्ति । बिक्रों के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आईएफसीआई लिमिटेड में दिए गए लेंक को देखें। (सुरक्षित लेनदार की) वेबसाइट www.ifciltd.com

दिनांक : 02.08.2024 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी आईएफसीआई लिमिटेड

2 Roto pumps ince 1968 >>>

#### ROTO PUMPS LTD.

louse, Noida Special Economic Zone, Noida – 201305 CIN: L28991UP1975PLC004152

Tel.: +91 120 2567902-05, Fax +91 120 2567911

Email: investors@rotopumps.com, Website: www.rotopumps.com NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of equity shares and un-claimed dividend to Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Account

his notice is published pursuant to the provisions of 124(6) of the companies act, 2013 Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Fransfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016. The Rules, inter alia, contain the provisions for transfer of al shares in respect of which dividend has been unclaimed for seven consecutive years of more in the demat account of IEPF Authority.

Inclaimed dividend for the financial year 2016-17 would become due for transferred to IEEPF on 5" November, 2024. In compliance with the requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually whose shares are, besides the shareholders whose un-claimed dividend is, liable to be transferred to the IEEPF Account under the said Rules for taking appropriate action.

The company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to he IEPF Account on its website <a href="www.rotopumps.com">www.rotopumps.com</a>. Shareholders are requested to refe to <a href="https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/">https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/</a> to verify the details of the uncashed lividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. Individual notices have been sent by the company to all the concerned shareholders to provide them an opportunity to claim their respective unpaid divided(s). In case the valid claims are not received from the concerned shareholders by 5th November

case the valid claims are not received from the concerned shareholders by 5th November 2024, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the shares held by the concerned shareholders to the IEPF Demat Account without any further notice. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the Rules.

Shareholders holding shares in Demat form may note that company shall transfer the shares by way of corporate action through the respective depositories (NSDL OR CDSL)

to the IEPF Authority. In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 5th November, 2024, the company shall with a view to adhering with the requirements of the rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per the procedure set out in the rules.

due date as per the procedure set out in the rules. No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to the said rules. However, it may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend(s) from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Form IEPF -5 available on the website <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a> and sending a physical copy of the same to the Company along with the requisite documents enumerated in the FORM IEPF-5.

along with the requisite documents enumerated in the POWN IEFF-3. Shareholders are requested to review their shareholding and take necessary action to claim their shares. For any further assistance please contact the company or RTA. In case of any query on the above matter, shareholders may contact Mr. Ashwani K Verma Company Secretary, Roto Pumps Limited, "Roto House", Noida Special Economic Zone Noida - 2010305 Tel: 0120 2567902 or e-mail at investors@rotopumps.com

Place: Noida Date: 01-08-2024

For **Roto Pumps Ltd**. ASHWANI K. VERMA COMPANY SECRETARY

#### बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड BAG सीआईएन : L74899DL1993PLC051841

पंजीकत कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नं. ८, कोंडली, नई दिल्ली-11009 कॉर्पोरेट कार्यालय : एफसी-23, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा-201301 (उ.प्र.) दूरभाष : 91 120 460 2424, फैक्स नं. : 91 120 3911 401 वेबसाइट : www.bagnetwork24.in, ई-मेल : info@bagnetwork.in

#### बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड की वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग)/ओएवं विजुअल साधनों) के माध्यम से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक

द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम आयोजित करने के लिए वितरित की जाने वाली31वीं एजीएम की सुच में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को शाम 4:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022 दिनांक ५ मई २०२२ प्रिपुत्र संख्या १०/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर २०२२ और साम्रान्य परिपुत्र संख्या ९/२०२३ दिनांक 25 सितंबर, 2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/7 दिनांक 12 मई. 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्य सेबी/एचओ/सीआरडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 ('सामृहिक रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित') ने सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 'अधिनियम') के लागू प्रावधानों सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 'सचीबद्धता विनियम') के अनपालन में अन्य एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के साथ, कंपनी के सदस्ये की 31वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा रही हैं. जिनके -मेल पते कंपनी या कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि 31वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइ www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर उपलब्ध . हैं और 31वीं एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल)(रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) को वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश 31वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अपने सभी सदस्यों को 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सविधा ('ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचन

यदि सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, तो कपया वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण दर्ज करने के लिए

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए – कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियों नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित) और आधार (स्व–सत्यापित) info@bagnetwork.in या info@alankit.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके य

info@bagnetwork.in पर ईमेल करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।

31वीं एजीएम की सचना, लाग काननों के अनसार, प्रेषण के लिए कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

. यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान) से संबंधित कोई प्रश्न/शिकाय है, तो आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबरः 022 -4886 7000 voting@nsdl.com पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानसा कृते बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

दिनांक: 01.08.2024 अजय मिश्रा स्थानः नोएडा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

## टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L33301DL1988PLC033434

पंजीकृत कार्यालय : ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-।।।, नई दिल्ली-110024 फोन : 91-120-4741300, ई-मेल : investor.relations@timex.com, वेबसाइट : www.timexindia.com

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

	(, ,					
विवरण	तिमाही समाप्त 30 जून 2024 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31 मार्च 2024 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30 जून 2023 (अ—लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)		
प्रचालनों से कुल आय	10867	9206	10629	41891		
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर	325	938	567	2776		
अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)						
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व	325	938	567	2776		
(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	10.000	***************************************		0,440,040,00		
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात	243	708	425	2084		
(अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2000	25/38/08	2000/00/s	0.000040003		
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि)	243	701	425	2077		
तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय						
(कर पश्चात) सम्मिलित है]			0.000			
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 1 प्रत्येक)	1010	1010	1010	1010		
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के		-	-	-		
लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है						
प्रति शेयर अर्जन (रू. 1/- प्रत्येक का) मूल एवं तनुकृत	0.06*	0.35*	0.24*	1.36		

#### \*वार्षिककृत नहीं

थान : नोएडा

. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 31 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनक अभिलेखन किया गया।

2 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत बीएसई लिमिटेड में प्रस्तुत किए गए 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही हेत् वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत रूप है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेत् वित्ती परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.timexindia.com) पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

हस्ता. /-दीपक छांबड प्रबंध निदेशव

तिथि : 31 जुलाई, 2024 डीआईएन : 01879706

# **JT<del>E</del>KT**

#### जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN - L29113DL1984PLC018415)

पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001. फोन नंबर: 011-23311924, 23327205;

ई—मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में, सिवाय प्रति शेयर अर्जन डेटा)

	(र राज १, समान प्राप्त समर जनग उन					
क्र.	विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	
सं.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	
1.	कुल आय	55,767.84	63,635.83	48,109.03	2,25,697.96	
2.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मदों से पूर्व)	2,005.85	4,885.23	1,754.39	13,906.01	
3.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के पश्चात)	2,005.85	4,885.23	2,493.65	14,645.27	
4.	अवधि हेतु कर पश्चात शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के पश्चात)	1,487.63	3,429.67	1,865.95	10,686.43	
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं।	1,483.80	3,403.91	1,849.10	10,590.89	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रति शेयर)	2,542.80	2,542.80	2,444.80	2,542.80	
7.	अन्य इक्विटी, जैसाकि अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है (पुनरमूल्यन संचेय छोड़कर)	-	-	-	79,625.27	
8.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य र 1/- प्रति शेयर) (तिमाही के लिए वार्षिककृत नहीं)					
	(क) मूल (ख) तनुकृत	0.59 0.59	1.35 1.35	0.73 0.73	4.20 4.20	

- 1. दिनांक 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतू अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उपरोक्त विवरण, अंकेक्षण समिति द्वारा पूनरीक्षित और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त परिणाम सांविधिक अंकेक्षकों की पुनरीक्षण रिपोर्ट सहित बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') वेबसाइट (URL.www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ('एनएसई') वेबसाइट (URL.www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (URL.www.jtekt.co.in) पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक ('IndAS') की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- बोर्ड ने दिनांक 30 मई, 2024 को सम्पन्न इसकी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए ₹ 1.00 प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 60% अर्थात ₹ 0.60 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर ₹ 1,525.68 लाख का अंतिम लाभांश विचारित एवं संस्तृत किया है। उक्त संस्तृति, दिनांक 13 अगस्त, 2024 को आयोजित की जाने वाली शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में उनके द्वारा स्वीकृति के अधीन है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

आरक्षित मूल्य

थान : गुरूग्राम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक : 01 अगस्त. 2024

# IndusInd Bank 🕝

शाखा तथा खाता/

पंजीकृत कार्यालयः इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल थिमैया रोड (छावनी), पुणे -411001, भारत अंचल कार्यालय : फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-11006

#### ई-नीलामी बिक्री सूचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत इंडसइंड बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रॉ)/बंधककर्ता(ऑ)/गारंटर(रॉ) को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकायों तथा नीचे वर्णित अन्य व्ययों की वसुली के लिए वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सुचना द्वारा की गयी मांग के अनुपालन में निम्नलिखित ऋण खाते में 'जहां है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार' पर बेचने के अधिकार सहित नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है और जबकि और जबकि बकाया राशि चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति के साथ उक्त नियमों के नियम 8 के तहत अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि वसूलने का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। अचल संपत्तियों का विवरण / खाते का विवरण / राशि / ईएमडी / आदि

> . सम्पत्ति के बंधककर्ता तथा गारंटरों ई-नीलामी की सम्पत्ति का विवरण मांग सूचना के अनुसार तिथि⁄समय तिथि एवं के नाम राशि करने की मांग सूचना की तिथि अन्तिम तिथि समय

कर्जदार का नाम बोली वृद्धि राशि इंडसइंड बैंक लिमिटेड, बंधककर्ताः मेसर्स सेवमैक्स होलसेल युनिट संख्या ए-39 निचले तल पर ₹. 13,85,22,343/-28.08.2024 17.08.2024 ₹. 5,49,00,000/ 12:30 बजे 01:00 बजे मांग सुचना की तिथि को 4:00 क्लब प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल ₹. 54,90,000/-बजे अप. मेसर्स सेवमैक्स होलसेल क अप. से 01:30 अप. से ०३:० 15058 वर्ग फीट है तथा पार्कर मॉल ₹. 2.00.000/ बजे अप. प्राइवेट लिमिटेड गारंटरः श्री वैभव सिंघल पुत्र श्री ज्ञान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड, 30 सितम्बर, 2019 तक तक बजे अप चंद अग्रवाल, सुश्री सीमा गुप्ता पत्नी श्री एन.एच.-1, सेक्टर-62, कुंडली, बकाया तथा ऋण सविधाओं के तहत पर्ण एवं अन्तिम भगतान की तिथि तक लागतों एवं व्ययों सहित परिसमापन में ) खाता संख्या 618000010792 ज्ञान चंद अग्रवाल सोनीपत, हरियाणा में स्थित।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम∕फोन नम्बर∕ईमेल आईडी- श्री नितिन महाजन मोबाइलः 9717375920 Nitin.Mahajan@indusind.com

प्रम और शर्तें: 1. यह ई-नीलामी 'जहां है जैसे है, जो है <mark>यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार</mark>' पर आयोजित की जा रही है। 2. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड द्वारा अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे (यूजर आईडी और पासवर्ड https://sarfaesi.auctiontiger.net वे ताथ नाम दर्ज करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।) ईएमडी को डिमांड ड्राफ्ट (लाभार्थी – संड्री एकाउंट एसेट मैनेजमेंट) के माध्यम से सममूल्य पर देय, ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को शाम 4.00 बजे तक जमा किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छूक बोलीदाताओं को केवाईसी दस्तावेज, जैसे कि पैन कार्ड की प्रति; पहचान प्रमाण/पता प्रमाण केवाईसी) जैसे कि मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्व-सत्यापित प्रति भी जमा करने होंगे और सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रति साथ लानी होगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति के संबंध में बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए को छोड़कर कोई भी ऋणभार या दावा नहीं है, जिसमें संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क, बिजली शुल्क आदि जैसे वैधानिक शुल्क शामिल हैं। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक शुल्क / ऋगभार / नगर निगम शुल्क / रखरखाव शुल्क / बिजली शुल्क, शुल्क / कर बकाया आदि, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और यह खरीदार की रकमात्र देयता होगी। इच्छूक बोलीदाताओं को भार, रखरखाव शुल्क, भृमि–उपयोग, कर, वैधानिक शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, संपत्ति के स्वामित्व आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और बोली जमा करने से पहले निरीक्षण और खुद को संतुष्ट करना चाहिए। एक बार बोली जमा हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि इच्छित बोलीदाता ने संपत्ति के संबंध में सभी पहलुओं से खुद को संतुष्ट कर लिया है। 4. संपत्तियों का निरीक्षण उपर्यक्त दिनांक और समय पर ही किया जा सकता है। 5. पार्कर मॉल में स्थित संपत्ति एक बड़ा हॉल है जिसमें 8 एकीकृत इकाइयां हैं. जिनमें से 1 इंडसइंड वैंक लिमिटेड के पास विशेष रूप से बंधक है जिसका क्षेत्रफल 15058 वर्ग फीट है (जैसा कि कपर दी गई तालिका में बताया गया है) और शेष इकाइयां कमश: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास विशेष रूप से बंधक हैं। ६. इच्छक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने. डेटा अपलोड करने. बोली जमा करने. ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है. व हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद, हेल्पलाइन नं: ०७७-68136880/68136837, श्री राम शर्मा मोबाइल: ९९७८5९1888, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी amprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय में (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) कपर उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 7. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी विशिष्ट संपत्ति, संपत्तियों की संख्या या सभी के संबंध में प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव / बोलियों को स्वीकार / अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सरक्षित रखता है। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकार होगा। यदि उच्चतम बोलीदाता इस नीलामी नोटिस की शर्तो और नियमों में निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक से संपत्ति को दूसरे उच्चतम बोलीदात को पेश कर सकता है, लेकिन इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। s. इच्छुक पक्षों को भूमि, भवन और अन्य विवरणों के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत परिसंपत्ति में किसी भी त्रुटि / चूक / विसंगति / कमी आदि के लिए या किसी भी अनुमति आदि प्राप्त करने या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण के बकाए के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ९. बिक्री प्रतिभत लेनदार द्वारा पष्टि के अधीन होगी। सफल बोलीदाता को बोली की स्वीकृति के तरंत बाद यानी उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक कल बोली राशि / खरीद मल्य (ईएमडी की राशि समायोजित करने के बाद) का 25%, और बोली राशि / खरीद का शेष 75% अचल संपत्तियों की बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या खरीदार, प्रतिभूत लेनदार द्वारा सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी मामले में 3 (तीन) महीने से अधिक नहीं, जमा करना होगा। 10. यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बिना किसी नोटिस के ईएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 11. असफल बोलीदाता की ईएमडी नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। वापस की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 12. क्रेता को स्टांप शल्क और शल्क. बिकी प्रमाण पत्र पंजीकरण शल्क. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया. कर और दरें. संपत्तियों से संबंधित मौजदा और भावी दोनों का भगतान करना होगा। 13. इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित / रद करने का अधिकार सुरक्षित है। ( विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.indusind.con और मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

इसे प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं और गारंटरों को उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में भी माना जाए। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ऊपर बताई गई राशि के साथ–साथ नवीनतम ब्याज और अनुषमगी व्यय का भुगतान करें, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी औ बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसुल की जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड तिथि : 02.08.2024